

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

संख्या- 57 /XXIV-2/2019-12(01)/2019

देहरादून : दिनांक 31 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण कार्यालय ज्ञाप 844/पी0एस0-वि0स0/2019 दिनांक 03.01.2019 द्वारा किये गये स्थानान्तरण में संशोधन/निरस्तीकरण करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 05 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	पूर्व तैनाती	कार्यालय ज्ञाप 844 दिनांक 03.01.2019 के अनुसार दी गयी तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1	श्री आर0के0 उनियाल	प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय	प्रभारी अपर निदेशक, कुमायूं मण्डल माध्यमिक शिक्षा	प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय देहरादून
2	श्री आनन्द भारद्वाज	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा बागेश्वर	उप निदेशक एस0सी0ई0आर0टी देहरादून

उपर्युक्त पदस्थापना/तैनाती के सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि :-

- उक्त अधिकारी अपने संशोधित तैनाती स्थान पर प्रत्येक दशा में 03 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि उक्त अधिकारियों द्वारा अपने नवीनतम तैनाती स्थल पर निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो संशोधित अपने वर्तमान तैनाती स्थल से स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जायेगा तथा उसका वेतन उसके पूर्व तैनाती स्थान से कदापि आहरित नहीं किया जायेगा। भविष्य में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत बाध्य प्रतीक्षा अवकाश की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संख्या- /XXIV/2/19-12(01)/2019 तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव-मा. शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
6. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. सम्बन्धित मुख्य, शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/बेसिक, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ।
10. प्रभारी, एन.आई.सी.सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकूनी)

उप सचिव।